



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1533]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2007/अग्रहायण 21, 1929

No. 1533]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2007/AGRAHAYANA 21, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2119(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं. का.आ. 602(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने हैलपेज इंडिया, सी-14, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 की "वृद्ध व्यक्तियों, कुष्ठ एवं कैंसर रोगियों की चिकित्सा देखभाल, वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रम की व्यवस्था, निस्सहाय वृद्ध महिलाओं के पुनर्वास, नेत्र शिविर आयोजन" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1994-95 से आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 12 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे दिनांक 3 मई, 1995 की अधिसूचना सं. का.आ. 405(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, और फिर दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 220(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए, दिनांक 20-06-2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 553(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के लिए, दिनांक 24-1-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 82(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 482(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से आरम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है;

और जबकि अनुमानित लागत को दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 510(अ) द्वारा 1295.00 लाख रुपए से बढ़ा

कर 2000.00 लाख रु. कर दिया गया था; और आगे दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 1046(अ) द्वारा 2000.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 4000.00 लाख रुपए; और दिनांक 24-1-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 82(अ) द्वारा 4000.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 6500.00 लाख रुपए कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के चौदह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति को यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना लागत को 65 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपए करने के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35कग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हैलपेज इंडिया, सी-14, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 की "वृद्ध व्यक्तियों, कुष्ठ एवं कैंसर रोगियों की चिकित्सा देखभाल, वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रम की व्यवस्था, निस्सहाय वृद्ध महिलाओं के पुनर्वास, नेत्र शिविर आयोजन" संबंधी परियोजना अथवा स्कीम के संबंध में दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं. का.आ. 602(अ) को निम्नलिखित अर्थ में संशोधित करती है नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 12 के सामने धारा 35कग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुपलब्ध लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में, "65 करोड़ रुपए" के अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "95 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 41-2007/फा. सं. एन.सी. 274/03/2007]

विजय कुमार, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2007

S.O. 2119(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 602(E) dated the 12th August, 1993, issued under sub-section (1) of Section 35AC of the Income Tax Act, 1961, read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961, the Central Government had specified at serial number 12 “Medical care to old persons, leprosy and cancer patients, provision of home to old persons rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps” of Helpage India, C-14, Qutab Institutional Area, New Delhi-110016 as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1994-1995, and extended further *vide* notification number S.O. 405(E) dated the 3rd May, 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997, and extended further *vide* notification number S.O. 220(E) dated the 16th March, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000, notification number S.O. 553(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three year beginning with assessment year 2002-2003, notification number S.O. 82(E) dated the 24th January, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and notification number S.O. 482(E) dated the 29th March, 2007 for a period of further three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas by notification number S.O. 510(E) dated the 26th May, 2000 the estimated cost was enhanced from Rs. 1295.00 lakh to Rs. 2000.00 lakh, and further enhanced *vide* notification number S.O. 1046(E) dated the

18th October, 2001 from Rs. 2000.00 lakh to Rs. 4000.00 lakh, and *vide* notification number S.O. 82(E) dated the 24th January, 2005 from Rs. 4000.00 lakh to Rs. 6500.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fourteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of Rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for enhancing the project cost from rupees Sixty five crore to rupees Ninety five crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 35AC of the Income Tax Act, 1961, read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 in respect of the scheme or project “Medical care to old persons, Leprosy and cancer patients, provision of home to old persons rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps” being carried out by Helpage India, C-14, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016, amends the said notification number S.O. 602(E) dated the 12th August, 1993, to following effect, namely :—

In the said notification, in the Table against serial number 12, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35AC, for the letters, figures and word “Rs. Sixty five crore”, the letters, figures and word “Rs. Ninety five crore” shall be substituted.

[No. 41/2007/F. No. NC-274/03/2007]

VIJAY KUMAR, Director (National Committee)